



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2197]

No. 2197]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 30, 2012/कार्तिक 8, 1934

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2012/KARTIKA 8, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2012

का.आ. 2645(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2663(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2011, और का.आ. 100(अ), तारीख 20 जनवरी, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) के 269/800 कि.मी. से 348/800 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और अधिसूचना का.आ. 2663(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2011 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 2 मार्च, 2012 को दैनिक “एकमत” (मराठी) और दैनिक “संघर्ष” (मराठी) दोनों में तथा अधिसूचना का.आ. 100(अ), तारीख 20 जनवरी, 2012 का सार तारीख 5 मार्च, 2012 को दैनिक “उस्मानाबाद टाइम्स” और “गुरुधर्म” (मराठी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

(1)

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 9 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं 65) के 269/800 कि. मी. से 348/800 कि. मी. (महाराष्ट्र - सेक्शन) तक के अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकृति	क्षेत्रफल वर्ग मीटर	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				3 ए के अनुसार	जेएम और आर/आर के अनुसार				
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	1. उस्मानाबाद	1. तुळजापूर	(1) नलदुर्ग	359	359	निजी	कृषी	29400	संदीप विलास कुलकर्णी, खंडाप्पा नीलाप्पा कोरे, भानुदास केशव जाधव, दासू केशव जाधव, दगडू केशव जाधव, सुभाष केशव जाधव, प्रकाश व्यंकटेश नाईक
				368	368	निजी	कृषी	3822.338	बाजार लाईन मजीद इमानी
				370	370	निजी	कृषी	50	आनंदकुमार दिनकरराव
				369	369	निजी	कृषी	18300	बाजार लाईन मजीद इमानी
							कुल	51572.338	
			(2) मुर्ता	360	360	निजी	कृषी	5100	विनायक दिगंबर भूमकर, नारायण अंबादास भूमकर
				359	359	निजी	कृषी	15600	सतीश भानूदास जाधव
					359	निजी	कृषी	9354.457	कांताराम जाधव
							कुल	30054.457	
		2. उमरगा	(1) तुरोरी	218	218 पै	निजी	कृषी	4200	जनार्दन मनोहर जाधव
					218 पै	निजी	कृषी	6400	अशोक मनोहर जाधव
					218 पै	निजी	कृषी	2200	जनार्दन मनोहर जाधव
					218 पै	निजी	कृषी	74.591	अशोक मनोहर जाधव
				221	221	निजी	कृषी	392.304	बाबुराव गोपालराव पाटील
				230	230 पै	निजी	कृषी	300	श्रीमती. पार्वती प्रताप जाधव
					230 पै	निजी	कृषी	100	बलभिम किसन जाधव
					230 पै	निजी	कृषी	200	मास्कर किसन जाधव
					230 पै	निजी	कृषी	300	अंगद किसन जाधव
					230 पै	निजी	कृषी	500	किरण ज्ञानेश्वर पाटील
					230 पै	निजी	कृषी	600	कैलास ज्ञानेश्वर जाधव
				5	5	निजी	कृषी	1055.004	पुर्णोत्तम अशोकराव पाटील
				3	3 पै	निजी	कृषी	500	प्रदिप पांडुरंग पाटील
					3 पै	निजी	कृषी	400	प्रमोद पांडुरंग पाटील
					3 पै	निजी	कृषी	800	प्रदिप पांडुरंग पाटील
					3 पै	निजी	कृषी	900	प्रमोद पांडुरंग पाटील
				13	13 पै	सरकारी	कृषी	800	जिल्हा परिषद शाळा
					13 पै	निजी	कृषी	400	दिलीप रामचंद्र पाटील
					13 पै	निजी	कृषी	400	मिमा रामचंद्र पाटील
					13 पै	निजी	कृषी	1400	अभिमान्यु रामचंद्र पाटील

1	2	3	4		5	6	7	8	9
				14	14 पै	निजी	कृषी	400	भिमाशंकर बसलिंगप्पा कस्तुरे
					14 पै	निजी	कृषी	200	व्यंकट देविदास साळुंखे
					14 पै	निजी	कृषी	500	विद्युलता विठ्ठलराव जाधव
					14 पै	निजी	कृषी	400	भास्कर माणिकराव पाटील
					14 पै	निजी	कृषी	500	व्यंकट विश्वनाथ गायकवाड
				18	18 पै	निजी	कृषी	600	सुहास विठ्ठल पवार
					18 पै	निजी	कृषी	300	मनोहर महादा पवार
					18 पै	निजी	कृषी	300	विक्रम व्यंकटराव गायकवाड
					18 पै	निजी	कृषी	300	कर्ण भिवा पवार
				19	19 पै	निजी	कृषी	900	विक्रम व्यंकटराव गायकवाड
					19 पै	निजी	कृषी	700	विजुलता विठ्ठलराव गायकवाड
				20	20 पै	निजी	कृषी	300	अंगद देविदास साळुंखे
					20 पै	निजी	कृषी	100	तात्याराव गोपालराव पाटील
					20 पै	निजी	कृषी	300	रुक्मिणीबाई व्यंकटराव साळुंखे
					20 पै	निजी	कृषी	200	शंकर रामराव जाधव
				34	34	निजी	कृषी	300	मितू शर्मा राठोड, पेतम केशव राठोड
				35	34	निजी	कृषी	300	लक्ष्मण निल् राठोड, सेक्रेटरी ग्रामपंचायत न. संस्था, तुरोरी तांडा
				36	36 पै	निजी	कृषी	600	शिवाजी छोकला राठोड
					36 पै	निजी	कृषी	600	विश्वास विजयकुमार उर्फ व्यंकटराव पाटील
					36 पै	निजी	कृषी	405 269	श्रीमंत रामहरी घोडके
					36 पै	निजी	कृषी	100	नामदेव महादेव लवटे
					36 पै	निजी	कृषी	100	फोरज हबीसाब मौजन
					36 पै	निजी	कृषी	100	विष्णु अप्पाराव लवटे
				37	37	निजी	कृषी	600	लक्ष्मीबाई विश्वनाथ नंदगुरे, शिवाजी रामराव जाधव, संजय शंकर राठोड
				38	38 पै	निजी	कृषी	600	बाबु सिकंदर मुळेगांव
					38 पै	निजी	कृषी	1500	भास्कर माणिकराव पाटील
				39	39	निजी	कृषी	6346.375	अंबुबाई चन्नप्पा कलशेट्टी
				40	40 पै	निजी	कृषी	500	व्यंकटराव विश्वनाथ गायकवाड
					40 पै	निजी	कृषी	600	प्रभाकर पांडुरंग जाधव
					40 पै	निजी	कृषी	1064.170	सुरेखाबाई वसंतीथ स्वामी
				42	42 पै	निजी	कृषी	600	दौलती इसम सांगवे, हैदर इसम सांगवे, केदार इसम सांगवे, महबूब इसम सांगवे
					42 पै	निजी	कृषी	800	हाजी अमीन पटेल
					42 पै	निजी	कृषी	239.764	बालाजी हरीचंद्र पवार, वसंत हरीचंद्र पवार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				42 पै	निजी	कृषी	239.764	पुलचंद दामजी पवार, वसंत हरीचंद्र पवार
			43	43	सरकारी	कृषी	800	सरकारी गायरान
			44	44 पै	निजी	कृषी	600	रविंद विश्वनाथ मुळे
				44 पै	निजी	कृषी	1400	गफार कासीम पटेल
				44 पै	निजी	कृषी	1100	दामा केशव पवार
				44 पै	निजी	कृषी	700	धनु केशव पवार
			45	45	सरकारी	कृषी	8500.000	शेषराव मारुती मुगळे
			53	53	सरकारी	कृषी	7024.701	सरकारी गायरान
			61	61	निजी	कृषी	4105.402	अंकुश शिवाजी लवटे, अप्पाराव शिवाजी लवटे, शिवाजी शिवाजी लवटे
			64	64	निजी	कृषी	2753.532	लिलाबाई जयसिंग चव्हाण
			65	65	निजी	कृषी	115.008	रागा गोविंद कराळे
			66	66	निजी	कृषी	3200	पंडीत शंकर राठोड
			67	67 पै	निजी	कृषी	800	ज्ञानेश्वर दाजी पाटील
				67 पै	निजी	कृषी	2000	प्रशांक कालीदास पाटील
			73	73 पै	निजी	कृषी	12	विजय व्यंकट जाधव
				73 पै	निजी	कृषी	400	मितू शर्मा राठोड, जगन्नाथ शर्मा राठोड, पुंडलिक पांडुरंग राठोड, तुलशीराम भिमा राठोड, पुलचंद भिमा राठोड
				73 पै	निजी	कृषी	400	पोटा केशव राठोड
				73 पै	निजी	कृषी	12	विठ्ठल केशव राठोड
			74	74 पै	निजी	कृषी	600	अभिमन्यु पांडुरंग पाटील, विठ्ठल केशव जाधव
				74 पै	निजी	कृषी	600	गोविंद मारुती शिंदे
				74 पै	निजी	कृषी	500	अरविंद गुडा जाधव
				74 पै	निजी	कृषी	1300	बाबू मारुती जाधव
			75	75	निजी	कृषी	2700	काशीनाथ कृष्णराव पाटील, वसंत किसन पाटील
			76	76 पै	निजी	कृषी	300	कमलाकर तुलशीराम पवार
				76 पै	निजी	कृषी	300	बाबूराव तुलशीराम पवार
				76 पै	निजी	कृषी	300	पंडीत तुलशीराम पवार
				76 पै	निजी	कृषी	600	विश्वनाथ काशीनाथ मुळेगांव
				76 पै	निजी	कृषी	600	नारायण काशीबा मुळेगांव
			77	77 पै	निजी	कृषी	1300	अशोक दत्तात्रय पाटील
				77 पै	निजी	कृषी	1000	चेअरमन/सेक्रेटरी ज्ञानदीप एजुकेशन कमिटी, तुरोरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				78	78	निजी	कृषी	अरविंद नारायण, देविदास गोविंदराव, नामदेव काशीबा, रामभाऊ मारुतीराव, धनुबाई मारुती बिराजदार, बाबुराव व्यंकटराव तापसे, माणिक तुलराम बलसुरे, विठ्ठल मारुती बिराजदार, शिवाजी अप्पाराव लवटे, ज्ञानेश्वर श्रीमंत जाधव
				231	231 पै	निजी	कृषी	पुरुषोत्तम अशोकराव पाटील
					231 पै	निजी	कृषी	मनोहर भिमराव जाधव
					231 पै	निजी	कृषी	विठ्ठल मारुती जाधव
					231 पै	निजी	कृषी	मनोहर भिमराव जाधव
					231 पै	निजी	कृषी	मनोहर भिमराव जाधव
				232	232 पै	निजी	कृषी	मधुकर विठ्ठल पवार
					232 पै	निजी	कृषी	मनोरमा गोविंदराव पाटील
				217	217 पै	निजी	कृषी	प्रदीप कालीदास पाटील (जाधव)
					217 पै	निजी	कृषी	शंकर गोविंदराव जोमद
					217 पै	निजी	कृषी	राम जयंतराव जाधव
					217 पै	निजी	कृषी	विजयकुमार नानाराव वडारे
					217 पै	निजी	कृषी	नरसिंग आनंदराव जाधव
							खुल	106775.52
			(2) तलमोड	72	72 पै	निजी	कृषी	शिवाजी भाऊराव मोरे
					72 पै	निजी	कृषी	पोपटबाई कालिदास धिटे
					72 पै	निजी	कृषी	मनोहर केशव मोरे
					72 पै	निजी	कृषी	रंजनाबाई किरण मोरे
				73	73 पै	निजी	कृषी	मोहन भिमराव मोरे
					73 पै	निजी	कृषी	व्यंकट भिमराव मोरे
					73 पै	निजी	कृषी	मोहन भिमराव मोरे, व्यंकट भिमराव मोरे
				74	74	निजी	कृषी	प्रकाश माणिक मोरे
				64	64 पै	निजी	कृषी	अभिमन्यू रामचंद्र मोरे, बब्रुवान रामचंद्र मोरे
					64 पै	निजी	कृषी	प्रकाश माणिक मोरे, अभिमन्यू रामचंद्र मोरे, बब्रुवान रामचंद्र मोरे
				61	61	निजी	कृषी	भास्कर नारायण मोरे
				60	60	निजी	कृषी	बदु हेमला जाधव चंदु शंकर जाधव, लालुबाई गेमा राठोड
				59	59	निजी	कृषी	मिलिंद मारुतीराव शिरसीकर
				77	77	सरकारी	कृषी	सरकारी गायरान
				12	12	निजी	कृषी	यादव गोपाळ मोरे
					8 पै	निजी	कृषी	मोकींद संभाजी मोरे
					8 पै	निजी	कृषी	अंजनाबाई श्रीमंत मोरे

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
				8	8 पै	निजी	कृषी	200	गुणाबाई गोपाळ मोरे	
					8 पै	निजी	कृषी	600	मोकींद संभाजी मोरे	
					8 पै	निजी	कृषी	400	हरि विश्वनाथ मोरे	
				7	7 पै	निजी	कृषी	200	माधव कालिदास मोरे	
					7 पै	निजी	कृषी	700	पंडीत यशवंत मोरे	
				6	6 पै	निजी	कृषी	900	व्यंकट यादव मोरे	
				16	16 पै	निजी	कृषी	2900	अंगत विश्वनाथ मोरे, मोहन विश्वनाथ मोरे, अशोक विश्वनाथ मोरे, दिलीप विश्वनाथ मोरे, श्रीमंत विश्वनाथ मोरे	
				17	17 पै	निजी	कृषी	500	पार्वतीबाई पांडूरंग मोरे	
					17 पै	निजी	कृषी	1000	नागनाथ पांडूरंग मोरे	
				20	20	निजी	कृषी	1600	बळीराम रघुराम जाधव	
				21	21	निजी	कृषी	2200	अजय सुभाष मोरे	
				24	24	निजी	कृषी	2700	छंबुबाई मुरलीधर मोरे	
				58	58 पै	निजी	कृषी	4500	विश्वनाथ गिरप्पा कलशेट्टी	
					58 पै	निजी	कृषी	4100	दत्तु गणपती मोरे, शिवाजी केशव मोरे	
					58 पै	निजी	कृषी	2400	विश्वनाथ गिरप्पा कलशेट्टी	
					58 पै	निजी	कृषी	2000	विक्रम उल्हास मोरे	
					58 पै	निजी	कृषी	1200	रिलायन्स कंपनी	
					58 पै	निजी	कृषी	700	नागनाथ पांडूरंग मोरे	
				40	40	निजी	कृषी	800	बळाराम शंकर मळगे	
				49	49	निजी	कृषी	900	7/12 प्रमाणे	
				48	48	निजी	कृषी	7615.181	पार्वती यशवंत मोरे, जयश यशवंतर मोरे, विठ्ठल नारायण मोरे	
				65	65	निजी	कृषी	1404.703	भास्कर नारायण मोरे	
				66	66 पै	निजी	कृषी	1787.239	पांडूरंग लिंबाजी मोरे	
				67	67 पै	निजी	कृषी	1800	भारतबाई सुभाष मोरे	
				68	68 पै	निजी	कृषी	500	व्यंकट भिमराव मोरे	
					68 पै	निजी	कृषी	500	मोहन भिमराव मोरे	
				71	71 पै	निजी	कृषी	900	रसिकबाई माणिक मोरे	
					71 पै	निजी	कृषी	654.472	रघुनाथ माधव मोरे	
					71 पै	निजी	कृषी	600	राहुल तानाजी मोरे	
					71 पै	निजी	कृषी	600	शिवाजी भाऊराव मोरे	
							खुल	73350.54		
				(3) थोरलीवाडी	48	48	निजी	कृषी	3363.011	यादव गोपालराव मोरे
					50	50	निजी	कृषी	2600	पंडीत यशवंतराव मोरे
					53	53	निजी	कृषी	5500	दिपक संतराम पाटील
								खुल	11463.011	
				(4) धाकटीवाडी	70	70 पै	निजी	कृषी	1200	सतिश विश्वनाथ मोरे
						70 पै	निजी	कृषी	1300	पंडीत यशवंतराव मोरे
71 पै	निजी	कृषी	1300			सौ. करुणा नागाराव जाधव				

1	2	3	4		5	6	7	8	9
				71	71 पै	निजी	कृषी	800.00	माधव यापू मोरे
					71 पै	निजी	कृषी	800	शिवाजी संभाजी मोरे
				72	72 पै	निजी	कृषी	1100	अब्दुल रफीक बाबुलाल अत्तार
					72 पै	निजी	कृषी	800	संजय शिवाजी मोरे
					72 पै	निजी	कृषी	2300	शिवाजी संभाजी मोरे
					72 पै	निजी	कृषी	900	मारुती भिमराव मोरे
					72 पै	निजी	कृषी	1000	भिमा मारुती मोरे
					72 पै	निजी	कृषी	600	देवेंद्रा बालचंद्र पाटील
				73	73 पै	निजी	कृषी	1000	सौ. वसंतलाबाई नारायण मोरे
					73 पै	निजी	कृषी	374.237	पांडुरंग श्यामराव मोरे
				16	16	निजी	कृषी	2500	अनिल वसंत मोरे, सुरेश वसंत मोरे
				17	17 पै	निजी	कृषी	1100	सुरेश रामजी मोरे
					17 पै	निजी	कृषी	1000	यशवंत रामजी मोरे
				18	18 पै	निजी	कृषी	900	सौ. उज्वला माधव मोरे, दगडु कैलास मोरे, अब्दुल रजाक अत्तार
					18 पै	निजी	कृषी	1000	अब्दुल रफीक बाबुलाल अत्तार
					18 पै	निजी	कृषी	500	मोहन नारायण मोरे
				14	14	सरकारी	कृषी	3200	सरकारी गायरान
				20	20 पै	निजी	कृषी	500	सौ. निता सुर्यकांत जाधव आर. टी.ओ. ऑफिस
					20 पै	निजी	कृषी	2451.201	व्यंकट विठोबा मोरे
				21	21 पै	निजी	कृषी	900	व्यंकट शिवराम पाटील
					21 पै	निजी	कृषी	500.00	राम गोविंद मोरे
					21 पै	निजी	कृषी	1900	गंगुबाई लक्ष्मण मोरे
							खुल	29925.44	
			(5) जगदलवाडी	46	46 पै	निजी	कृषी	700	उधदव गोपालराव मोरे
					46 पै	निजी	कृषी	700	किसन विठ्ठलराव मोरे
					46 पै	निजी	कृषी	600	बभ्रुवान भानुदास मोरे
					46 पै	निजी	कृषी	500	साजाबाई ईश्वर मोरे
				45	45 पै	निजी	कृषी	913.446	मोहन नारायण मोरे
				44	44 पै	निजी	कृषी	1200	सौ. लताबाई बभ्रुवान मोरे
					44 पै	निजी	कृषी	959.507	सौ. साजाबाई ईश्वर मोरे
				43	43 पै	निजी	कृषी	600	लताबाई सुभाष मोरे
					43 पै	निजी	कृषी	3200	सुरेश वसंतराव मोरे, अनिल वसंतराव मोरे
				42	42	निजी	कृषी	6518.305	लताबाई सुभाष मोरे
				38	38	निजी	कृषी	1000	जयश्री बलभिम गुरव
				40	40 पै	निजी	कृषी	3100	यशवंत रामजी मोरे
					40 पै	निजी	कृषी	2200	सुरेश रामजी मोरे
					40 पै	निजी	कृषी	4187.238	यशवंत रामजी मोरे

1	2	3	4		5	6	7	8	9
				39	39	निजी	कृषी	974.638	नागनाथ सिद्राम गुरव, मारुती बाबुराव गुरव, निवृत्ती बापू गुरव
				37	37	निजी	कृषी	5700	अशोक दादाशव मोरे
				36	36	निजी	कृषी	726.797	अशोक दादाशव मोरे, धर्मराज अशोक मोरे, सौ. वैजताबाई अशोक मोरे
				35	35 पै	निजी	कृषी	1100	उध्दव गोपालराव मोरे
					35 पै	निजी	कृषी	1200.000	बालचंद्र पाटील
				32	32 पै	निजी	कृषी	1100	यादव गोपालराव मोरे
					32 पै	निजी	कृषी	653.379	महादेव गोपालराव मोरे
				31	31 पै	निजी	कृषी	1200	श्रीमंत माणिक जाधव
					31 पै	निजी	कृषी	1900	सौ. निता सुर्यकांत जाधव
					31 पै	निजी	कृषी	1400	सौ. कामाबाई नारायण मोरे
					31 पै	निजी	कृषी	1000	व्यंकट विठोबा मोरे
					31 पै	निजी	कृषी	2700	व्यंकट विठोबा मोरे
				30	30	निजी	कृषी	8100	जुने संपादन साठवण तलाव
				26	26 पै	निजी	कृषी	1100	शिवाजी दत्तात्रय चव्हाण
					26 पै	निजी	कृषी	1000	उषाबाई सतू जाधव, निलकंठ यशवंत जाधव
					26 पै	निजी	कृषी	1500	बालू निवृत्ती जाधव
					26 पै	निजी	कृषी	1400	रेवणसिद्धप्पा मल्लय्या गुप्तेदार
					26 पै	निजी	कृषी	1100	श्रीमंत माणिक जाधव
					26 पै	निजी	कृषी	1000	मोहन माणिक जाधव
					26 पै	निजी	कृषी	1100	वनम माणिक जाधव
					26 पै	निजी	कृषी	700	दादाशव एकनाथ जाधव
					26 पै	निजी	कृषी	600	किसन एकनाथ जाधव
					26 पै	निजी	कृषी	1300	प्रताप शिवराम पाटील
					26 पै	निजी	कृषी	900	निलकंठ यशवंत जाधव
					26 पै	निजी और मंदिर	कृषी	300	महादेव मंदिर, निलकंठ यशवंत जाधव
				29	29 पै	निजी	कृषी	500	श्रीमंत माणिक जाधव
					29 पै	निजी	कृषी	300	मोहन माणिक जाधव
					29 पै	निजी	कृषी	400	वनम माणिक जाधव
					29 पै	निजी	कृषी	600	दादाशव एकनाथ जाधव
					29 पै	निजी	कृषी	500	लक्ष्मण एकनाथ जाधव
					29 पै	निजी	कृषी	300	दादाशव एकनाथ जाधव
					29 पै	निजी	कृषी	526.492	किसन एकनाथ जाधव
							खुल	69259.80	
							महायोग	372401.111	

[फा. सं. भारराप्रा/एलए/11013/महाराष्ट्र/सोलापूर/2010]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2012

S.O. 2645(E).—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **S.O.2663 (E) dated the 25th November 2011 & S.O.100 (E) dated the 20th January 2012**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said Notification for building (widening/four laning), Maintenance, Management and Operation of National Highway No. 9 (Now New National Highway No. 65) on the stretch of land from **Km 269/800 to Km 348/800 (Maharashtra Section)** in the district **Osmanabad** in the State of **Maharashtra**.

And whereas, the substance of the said Notification **S.O.2663 (E) dated the 25th November 2011** has been published in Daily “Ekmat (Marathi)”, and Daily “Sangharsh (Marathi)” both dated the 2nd March 2012 and Notification **S.O.100 (E) dated the 20th January 2012**, Daily “Osmanabad Times” and “Gurudhurma (Marathi)” both dated the 5th March 2012, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

4166 GT/12-3

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within stretch of land from Km 269/800 to Km 348/800 (Maharashtra Section) of the National Highway No. 9 (Now New National Highway No. 65) in the State of Maharashtra.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in Square metres)	Name of the land owner/ interested persons
				As per 3A	As per JMS				
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	1. Osmanabad	1. Tuljapur	(1) Naldurg	359	359	Private	Agriculture	29400	Sandip Vilas Kulkarni, Khandappa Neelappa Kore, Bhanudas Keshav Jadhav, Dasu Keshav Jadhav, Dagadu Keshav Jadhav, Subhash Keshav Jadhav, Prakash Vyankatesh Naik.
				368	368	Private	Agriculture	3822.338	Bazar Line Mazid Inami
				370	370	Private	Agriculture	50	Anandkumar Dinakarrao
				369	369	Private	Agriculture	18300	Bazar Line Mazid Inami
							Total	51572.338	
			(2) Murta	360	360	Private	Agriculture	5100	Vinayak Digamber Bhumkar, Narayan Ambadas Bhumkar
				359	359	Private	Agriculture	15600	Satish Bhanudas Jadhav
					359	Private	Agriculture	9354.457	Kanturam Jadhav
							Total	30054.457	
		2. Umarga	(1) Turori	218	218 P	Private	Agriculture	4200	Janardhan Manohar Jadhav
					218 P	Private	Agriculture	6400	Ashok Manohar Jadhav
					218 P	Private	Agriculture	2200	Janardhan Manohar Jadhav
					218 P	Private	Agriculture	74.591	Ashok Manohar Jadhav
				221	221	Private	Agriculture	392.304	Baburao Gopalrao Patil
				230	230 P	Private	Agriculture	300	Smt. Parvati Pralap Jadhav
					230 P	Private	Agriculture	100	Balbhim Kisan Jadhav
					230 P	Private	Agriculture	200	Bhaskar Kisan Jadhav
					230 P	Private	Agriculture	300	Angad Kisan Jadhav
					230 P	Private	Agriculture	500	Kiran Dyaneshwar Patil
					230 P	Private	Agriculture	600	Kalidas Dyaneshwar Jadhav
				5	5	Private	Agriculture	1055.004	Purshottam Ashokrao Patil
				3	3 P	Private	Agriculture	500	Pradip Pandurang Patil
					3 P	Private	Agriculture	400	Pramod Pandurang Patil
					3 P	Private	Agriculture	800	Pradip Pandurang Patil
					3 P	Private	Agriculture	900	Pramod Pandurang Patil
				13	13 P	Government	Agriculture	800	Zilla Parishad School
					13 P	Private	Agriculture	400	Dilip Ramchandra Patil
					13 P	Private	Agriculture	400	Bhim Ramchandra Patil
					13 P	Private	Agriculture	1400	Abhimaneu Ramchandra Patil
				14	14 P	Private	Agriculture	400	Bhimashankar Baslingappa Kasture
					14 P	Private	Agriculture	200	Vyankat Devidas Salanke
					14 P	Private	Agriculture	500	Vidyalata Vitthalrao Jadhav
					14 P	Private	Agriculture	400	Bhaskar Manikrao Patil
					14 P	Private	Agriculture	500	Vyankat Vishwanath Gaikwad
				18	18 P	Private	Agriculture	600	Suhas Vitthal Pawar
					18 P	Private	Agriculture	300	Manohar Mahada Pawar
					18 P	Private	Agriculture	300	Pandurang Bhiva Pawar
					18 P	Private	Agriculture	300	Karan Bhiva Pawar
				19	19 P	Private	Agriculture	900	Vikram Vyankatrao Gaikwad
					19 P	Private	Agriculture	700	Vijulata Vitthalrao Gaikwad
				20	20 P	Private	Agriculture	300	Angad Devidas Salanke
					20 P	Private	Agriculture	100	Tatyrao Gopalrao Patil

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				20 P	Private	Agriculture	300	Rukminibai Vyankatrao Salunke
				20 P	Private	Agriculture	200	Shankar Ramrao Jadhav
				34	Private	Agriculture	300	Mithu Shama Rathod, Petam Keshav Rathod
				35	Private	Agriculture	300	Laxman Nilu Rathod, Secretary Grampanchayat N. Sanstha, Turori Tanda
				36 P	Private	Agriculture	600	Shivaji Chokhala Rathod
				36 P	Private	Agriculture	600	Vishwas Vijaykumar Urf Vyankatrao Patil
				36 P	Private	Agriculture	405.269	Shrimant Rambhari Ghadke
				36 P	Private	Agriculture	100	Namdev Mahadev Lavate
				36 P	Private	Agriculture	100	Phoroj Habisab Moujan
				36 P	Private	Agriculture	100	Vishnu Apparao Lavate
				37	Private	Agriculture	600	Laxmibai Vishwanath Nandgure, Shivaji Ramrao Jadhav, Sanjay Shankar Rathod
				38 P	Private	Agriculture	600	Babu Sikandar Mulegaon
				38 P	Private	Agriculture	1500	Bhaskar Manikrao Patil
				39	Private	Agriculture	6346.375	Ambubai Channappa Kalshetti
				40 P	Private	Agriculture	500	Vyankatrao Vishwanath Gaikwad
				40 P	Private	Agriculture	600	Prabhakar Pandurang Jadhav
				40 P	Private	Agriculture	1064.170	Surekhabai Vasanttirth Swami
				42 P	Private	Agriculture	600	Doulati Esam Sangave, Haidar Esam Sangave, Khadar Esam Sangave, Mahabub Esam Sangave
				42 P	Private	Agriculture	800	Haji Amin Patel
				42 P	Private	Agriculture	239.764	Balaji Harichandra Pawar, Vasant Harichandra Pawar
				42 P	Private	Agriculture	239.764	Phulchand Damaji Pawar, Vasant Harichandra Pawar
				43	Government	Agriculture	800	Government Gayaran
				44 P	Private	Agriculture	600	Ravindra Vishwanath Mule
				44 P	Private	Agriculture	1400	Gafur Kashim Patel
				44 P	Private	Agriculture	1100	Dama Keshav Pawar
				44 P	Private	Agriculture	700	Dhanu Keshav Pawar
				45	Private	Agriculture	8500	Shesherao Maruti Mugale
				53	Government	Agriculture	7024.701	Government Gayaran
				61	Private	Agriculture	4105.402	Ankush Shivaji Lavate, Apparao Shivaji Lavate, Shivaji Shivaji Lavate
				64	Private	Agriculture	2753.532	Lilabai Jaysingh Chavan
				65	Private	Agriculture	115.008	Raga Govinda Karale
				66	Private	Agriculture	3200	Pandit Shankar Rathod
				67 P	Private	Agriculture	800	Dyaneshwar Daji Partil
				67 P	Private	Agriculture	2000	Prashank Kalidas Patil
				73 P	Private	Agriculture	12	Vijay Vyankat Jadhav
				73 P	Private	Agriculture	400	Mithu Shama Rathod, Jagannath Shama Rathod, Pundlik Pandurang Rathod, Tulshiram Bhim Rathod, Phulchand Bhima Rathod
				73 P	Private	Agriculture	400	Pota Keshav Rathod
				73 P	Private	Agriculture	12	Vitthal Keshav Rathod

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				74 P	Private	Agriculture	600	Abhimane Pandurang Patil, Vitthal Keshav Jadhav
				74 P	Private	Agriculture	600	Govind Maruti Shinde
				74 P	Private	Agriculture	500	Arvind Gunda Jadhav
				74 P	Private	Agriculture	1300	Babu Maruti Jadhav
				75	Private	Agriculture	2700	Kashinath Kisanrao Patil, Vasant Kisan Patil
				76 P	Private	Agriculture	300	Kamlakar Tulshiram Pawar
				76 P	Private	Agriculture	300	Baburao Tulshiram Pawar
				76 P	Private	Agriculture	300	Pandit Tulshiram Pawar
				76 P	Private	Agriculture	600	Vishwanath Kashinath Malegaon
				76 P	Private	Agriculture	600	Narayan Kashiba Malegaon
				77 P	Private	Agriculture	1300	Ashok Dattatray Patil
				77 P	Private	Agriculture	1000	Chairman/Secretary Dyandeep Education Committee Turori
				231 P	Private	Agriculture	2100	Puroshotam Ashokrao Patil
				231 P	Private	Agriculture	1000	Manohar Bhimrao Jadhav
				231 P	Private	Agriculture	2000	Vitthal Maruti Jadhav
				231 P	Private	Agriculture	700	Manohar Bhimrao Jadhav
				231 P	Private	Agriculture	800	Manohar Bhimrao Jadhav
				232 P	Private	Agriculture	1000	Madhukar Vitthal Pawar
				232 P	Private	Agriculture	1009.875	Manorama Govindrao Patil
				217 P	Private	Agriculture	2900	Pradip Kalidas Patil (Jadhav)
				217 P	Private	Agriculture	100	Shankar Govindrao Jomad
				217 P	Private	Agriculture	2800	Ram Jayantrao Jadhav
				217 P	Private	Agriculture	1500	Vijaykumar Nanarao Vaddare
				217 P	Private	Agriculture	3325.762	Narsingh Anandrao Jadhav
						Total	106775.52	
			(2) Talmod	72 P	Private	Agriculture	1400	Shivaji Bhaurao More
				72 P	Private	Agriculture	1700	Popatbai Kalidas Thite
				72 P	Private	Agriculture	1100	Manohar Keshav More
				72 P	Private	Agriculture	2060.365	Ashok Manohar Jadhav
				73 P	Private	Agriculture	500	Mohan Bhimrao More
				73 P	Private	Agriculture	500	Vyankat Bhimrao More
				73 P	Private	Agriculture	400	Mohan Bhimrao More, Vyankat Bhimrao More
				74	Private	Agriculture	1028.584	Prakash Manik More
				64 P	Private	Agriculture	1500	Abhimanu Ramchandra More, Babruvan Ramchandra More
				64 P	Private	Agriculture	100	Prakash Manik More, Abhimanu Ramchandra More, Babruvan Ramchandra More
				61	Private	Agriculture	2700	Bhaskar Narayan More
				60	Private	Agriculture	1900	Badu Hemla Jadhav, Chandu Shankar Jadhav, Lalubai Narayan More
				59	Private	Agriculture	3200	Milind Marutirao Shirsikar
				77	Government	Agriculture	6500	Government Gayaran
				12	Private	Agriculture	900	Yadav Gopalrao More
				8 P	Private	Agriculture	800	Mokind Sambhaji More
				8 P	Private	Agriculture	200	Anjanabai Shrimant More
				8 P	Private	Agriculture	200	Gunabai Gopal More
				8 P	Private	Agriculture	600	Mokind Sambhaji More
				8 P	Private	Agriculture	400	Hari Vishwanath More

1	2	3	4		5	6	7	8	9	
				7	7 P	Private	Agriculture	200	Madhav Kalidas More	
					7 P	Private	Agriculture	700	Pandit Yashvant More	
				6	6 P	Private	Agriculture	900	Vyankat Yadav More	
				16	16 P	Private	Agriculture	2900	Aangat Vishwanath More, Mohan Vishwanath More, Ashok Vishwanath More, Dili Vishwanath More, Shrimant Vishwanath More	
				17	17 P	Private	Agriculture	500	Parvatibai Pandurang More	
					17 P	Private	Agriculture	1000	Nagnath Pandurang More	
				20	20	Private	Agriculture	1600	Baliram Raghuram Jadhav	
				21	21	Private	Agriculture	2200	Ajay Subhash More	
				24	24	Private	Agriculture	2700	Chambubai Raghuram Jadhav	
				58	58 P	Private	Agriculture	4500	Vishwanath Girappa Kalshetti	
					58 P	Private	Agriculture	4100	Dattu Ganapati More, Shivaji Keshav More	
					58 P	Private	Agriculture	2400	Vishwanath Girappa Kalshetti	
					58 P	Private	Agriculture	2000	Vikram Ulhas More	
					58 P	Private	Agriculture	1200	Reliance Company	
					58 P	Private	Agriculture	700	Nagnath Pandurang More	
				40	40	Private	Agriculture	800	Baliram Shankar Malge	
				49	49	Private	Agriculture	900	As per 7/12 Extract	
				48	48	Private	Agriculture	7615	Parvati Yashvant More, Jayash Yashvant More, Vitthal Narayan More	
				65	65	Private	Agriculture	1404.703	Bhaskar Narayan More	
				66	66 P	Private	Agriculture	1787.239	Pandurang Limbaji More	
				67	67 P	Private	Agriculture	1800	Pandurang Limbaji More	
				68	68 P	Private	Agriculture	500	Vyankat Bhimrao More	
					68 P	Private	Agriculture	500	Mohan Bhimrao More	
				71	71 P	Private	Agriculture	900	Rashikbai Manik More	
					71 P	Private	Agriculture	654.472	Raghunath Madhav More	
					71 P	Private	Agriculture	600	Rahul Tanaji More	
					71 P	Private	Agriculture	600	Shivaji Bhaurao More	
							Total	73350.54		
				(3) Thorli Wadi	48	48	Private	Agriculture	3363.011	Yadav Gopalrao More
					50	50	Private	Agriculture	2600	Pandit Yashvant More
					53	53	Private	Agriculture	5500	Deepak Santram Patil
								Total	11463.011	
				(4) Dhakti Wadi	70	70 P	Private	Agriculture	1200	Saish Vishwanath More
						70 P	Private	Agriculture	1300	Pandit Yashvantrao More
					71	71 P	Private	Agriculture	1300	Sou. Karuna Nagarao Jadhav
						71 P	Private	Agriculture	800	Madhav Yafu More
						71 P	Private	Agriculture	800	Shivaji Sambhaji More
					72	72 P	Private	Agriculture	1100	Abdul Rafik Babulal Atar
						72 P	Private	Agriculture	800	Sanjay Shivaji More
						72 P	Private	Agriculture	2300	Shivaji Maruti More
						72 P	Private	Agriculture	900	Maruti Bhimrao More
						72 P	Private	Agriculture	1000	Bhim Maruti More
						72 P	Private	Agriculture	600	Devendra Bhalchandra Patil
					73	73 P	Private	Agriculture	1000	Sou. Vastlabai Narayan More
						73 P	Private	Agriculture	374.237	Pandurang Shamrao More
16	16	Private	Agriculture		2500	Anil Vasant More, Suresh Vasant More				

4166 GF/12-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				17	17 P	Private	Agriculture	1100	Suresh Ramji More		
				17 P	Private	Agriculture	1000	Yashvanta Ramji More			
				18	18 P	Private	Agriculture	900	Sou. Ujwala Madhav More, Dagadu Kalias More, Abdul Razak Attar		
					18 P	Private	Agriculture	1000	Abdul Rafik Babulal Atar		
					18 P	Private	Agriculture	500	Mohan Narayan More		
				14	14	Government	Agriculture	3200	Government Gayaran		
				20	20 P	Private	Agriculture	500	Sou. Neeta Surykani Jadhav RTO Office		
					20 P	Private	Agriculture	2451.201	Vyankat Vithoba More		
				21	21 P	Private	Agriculture	900	Vyankat Shivrani Patil		
					21 P	Private	Agriculture	500	Ram Govinda More		
					21 P	Private	Agriculture	1900	Gangubai Laxman More		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				26 P	Private	Agriculture	1100	Shivaji Dattatray Chavan
				26 P	Private	Agriculture	1000	Ushabai Satu Jadhav, Nilkant Yashvant Jadhav
				26 P	Private	Agriculture	1500	Balu Nivrutti Jadhav
				26 P	Private	Agriculture	1400	Revan Siddhappa Malayya Guptedar
				26 P	Private	Agriculture	1100	Shrimant Manik Jadhav
				26 P	Private	Agriculture	1000	Mohan Manik Jadhav
				26 P	Private	Agriculture	1100	Vaman Manik Jadhav
				26 P	Private	Agriculture	700	Dadarao Eknath Jadhav
				26 P	Private	Agriculture	600	Kisan Eknath Jadhav
				26 P	Private	Agriculture	1300	Pratap Shivram patil
				26 P	Private	Agriculture	900	Nilkanta Yashvanta Jadhav
				26 P	Private & Temple	Agriculture	300	Mahadev Mandir, Nilkanta Yashvanta Jadhav
				29 P	Private	Agriculture	500	Shrimant Manik Jadhav
				29 P	Private	Agriculture	300	Mohan Manik Jadhav
				29 P	Private	Agriculture	400	Vaman Manik Jadhav
				29 P	Private	Agriculture	600	Dadarao Eknath Jadhav
				29 P	Private	Agriculture	500	Laxman Eknath Jadhav
				29 P	Private	Agriculture	300	Dadarao Eknath Jadhav
				29 P	Private	Agriculture	526.492	Kisan Eknath Jadhav
						Total	69259.80	
						Grand Total	372401.111	

[F. No.NHA1/LA/11013/Mah/Solapur/2010]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.